



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 28, 1982 भावण 6, 1904
No. 315] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1982/S HRAVNA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Coal)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th July, 1982

S.O. 531(E).—In the Ministry of Energy (Department of Coal) published with the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 3(ii), Serial No. 207, page 2, dated 25th May, 1982, S.O. No. 348(E), dated the 4th May, 1982, English version read as under :—

- (i) in line 4 (5th word) for 'Gnveroment' read 'Government'.
- (ii) in line 4 (last word) for 'classe' read 'classes'
- (iii) in line 5 (5th word) for 'Ohurcha V' read 'Churcha V'.

[No. 15014/2/81-CRC]
P. SARKAR, Director

503 GI/82

(1)

